

मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टम-शताब्दी स्मृतिग्रन्थ(फोल्डर नं. ०२०१९)

मुख्य टाइटल

प्रस्तावना

इस ग्रन्थ में

प्रथम खण्ड

विधिमार्ग प्रकाशक जिनेश्वरसूरि और उनकी विशिष्ट परम्परा – मुनि जिनविजयजी -----	१
श्रीजिनचन्द्रसूरिजी की श्रेष्ठ रचना – संवेगरंगशाला आराधना – पं. लालचन्द्र भगवान गान्धी -----	९
नवाङ्गी वृत्तिकार श्रीअभयदेवसूरि – श्री अजरचंद नाहटा -----	१७
प्रकाण्ड विद्वान और कवि श्रेष्ठ श्रीजिनवल्लभसूरि – श्री अजरचंद नाहटा -----	२०
योगीन्द्र युगप्रधान दादा श्रीजिनदत्तसूरि – मुनिश्री सुखसागरजी महाराज -----	२१
मणिधारी दादा श्रीजिनचन्द्रसूरि - -----	२४
षट्त्रिंशत् वाद-विजेता श्रीजिनपतिसूरि – महोपाध्याय विनयसागरजी -----	२७
प्रगटप्रभावी दादा श्रीजिनकुशलसूरि – श्री भँवरलालजी नाहटा -----	२९
महान् शासन प्रभावक श्री जिनप्रभसूरि – श्री अजरचंद नाहटा -----	३३
अनेक ज्ञानभण्डारों के संस्थापक श्रीजिनभद्रसूरि – मुनि श्री जिनविजयजी -----	३८
अकबर प्रतिबोधक युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि – श्री भँवरलाल नाहटा-----	४१
दादा गुरुओं के प्राचीन चित्र – श्री भँवरलाल नाहटा -----	४९
कीर्तिरत्नसूरि रचित नेमिनाथ महाकाव्य – प्रो. सत्यव्रतजी -----	५७
नरमणिमण्डितभालस्थल युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि चरितम् -----	७५
दादाजी -----	८३
महोपाध्याय जयसागर – श्री अजरचंदजी नाहटा -----	८४
श्रीगुणरत्नगणि की तर्करङ्गिणी – श्री जितेन्द्र जेटली -----	८९
जोड़सहीर-महत्त्वपूर्ण खरतरगच्छीय ज्योतिष ग्रन्थ – पं. भगवानदास जैन -----	९५
महोपाध्याय समयसुन्दरजी के साहित्य में लौकिकतत्व – डॉ. मनोहर शर्मा -----	९७
गहूली संग्रह - -----	१०४
महाकवि जिनहर्ष-मूल्यङ्कन और सन्देश – डॉ. ईश्वरदास शर्मा -----	१०५
पूज्य श्रीमद्देवचन्द्रजी के साहित्य में से सुधाबिन्दु – स्वामी श्री ऋषभदासजी -----	११३
खरतरगच्छ की क्रान्तिकारी और अध्यात्मिक परम्परा – श्री भँवरलाल नाहटा -----	११९
उ. क्षमाकल्याणजी और उनका साधुसमुदाय – श्री अजरचंदजी नाहटा -----	१२६
सुविहिताग्रणी गणाधीश सुखसागरजी – श्री अजरचंदजी नाहटा -----	१२८
प्रभावक आचार्यदेवश्री जिनहरिसागर सूरिश्वर – मुनिश्री कान्तिसागरजी -----	१३०
शासनप्रभावक आचार्य श्रीजिनआनन्दसागरसूरि – मुनिश्री महोदयसागरजी -----	१३५
आचार्य श्रीजिनकवीन्द्रसागरसूरि – साध्वीजी श्री सज्जनश्रीजी -----	१३९

महान्प्रतापी श्रीमोहनलालजी महाराज – श्री भँवरलालजी नाहटा -----	१४२
आचार्य प्रवर श्रीजिनयशःसूरिजी – श्री भँवरलाल नाहटा -----	१४३
प्रभावक आचार्य श्रीजिनऋद्धिसूरि – श्री भँवरलाल नाहटा -----	१४६
आचार्यरत्न श्रीजिनरत्नसूरि – श्री भँवरलाल नाहटा -----	१४९
विद्वद्वर्य उपाध्याय श्रीलब्धिमुनिजी – श्री भँवरलाल नाहटा -----	१५३
स्वर्गीय गणिवर्य श्रीबुद्धिमुनिजी – श्री अजरचंदजी नाहटा -----	१५६
श्रीजिनकृपाचन्द्रसूरिजी और उनका साधुसमुदाय – श्री भँवरलाल नाहटा -----	१५९
पुरातत्व एवं कलामर्मज्ञ प्रतिभामूर्ति कान्तिसागरजी को श्रद्धांजलि – श्री अजरचन्दजी नाहटा -----	१६३
आचार्य श्रीजिनमणिसागरसूरि – श्री भँवरलाल नाहटा -----	१६६
खरतरगच्छ के साहित्य सर्जक श्रावकगण - श्री अजरचन्दजी नाहटा -----	१६९
अपभ्रंश काव्यत्रयी एक अनुशीलन – डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री -----	१७४
खरतरगच्छ की भारतीय संस्कृति को देन – रामवल्ल सोमानी -----	१८०
जेसलमेर के महत्वपूर्ण ज्ञानभण्डार – मुनि श्री पुण्यविजयजी -----	१८४
खरतरगच्छ की महान् विभूति दानवीर सेठ मोतीशाह – श्री चाँदमलजी सिपाणी -----	१८६
द्वितीय खण्ड	
खरतरगच्छ साहित्य सूची – श्री अजरचन्द नाहटा और श्री भँवरलाल नाहटा -----	१-७२